

प्रेस नोट थाना फतेहपुर दिनांक 18.08.2022

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा एक नफर वारन्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद सहारनपुर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर जनपद सहारनपुर के निर्देशन में एवं श्रीमान थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर के नेतृत्व में दिनांक 18.08.2022 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा **एक नफर वारन्टी अभियुक्त इस्तखार पुत्र यासीन निवासी ग्राम साहबपुरा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर सम्बन्धित परिवाद नं0 4094/21 सोनू बनाम इस्तखार धारा 138 NI ACT को उसके मस्कन पर दविश देकर समय 06.05 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. इस्तखार पुत्र यासीन निवासी ग्राम साहबपुरा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. श्री सतेन्द्र नागर, थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अमित नागर थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. का0 2477 गौरव कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. का0 2525 अनुप सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 18-08-2022

थाना बड़गांव, सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अवैध शराब का निर्माण करते समय 02 शातिर शराब तसकर गिरफ्तार, कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब, 200 लीटर लहन व शराब बनाने

उपकरण बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में शराब तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द, सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 17-08-2022 को थाना बड़गांव पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम बालू माजरा से 02 शराब तस्कर क्रमशः 1-सुक्का पुत्र लालू निवासी ग्राम बालू माजरा थाना बड़गांव, सहारनपुर 2-बल्ला पुत्र लालू निवासी ग्राम बालू माजरा थाना बड़गांव, सहारनपुर को कच्ची शराब का निर्माण करते समय गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से मौके से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब, 200 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण बरामद किये गये हैं। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़गांव पर मु0अ0सं0 156/22 धारा 60(2) आबकारी अधि0 पंजीकृत करते हुये अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को नाम व पता:-

- 1-सुक्का पुत्र लालू निवासी ग्राम बालू माजरा थाना बड़गांव, सहारनपुर।
- 2-बल्ला पुत्र लालू निवासी ग्राम बालू माजरा थाना बड़गांव, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 1-50 लीटर अवैध कच्ची शराब।
- 2-200 लीटर लहन व शराब बनाने के उपकरण।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

- 1-प्र0नि0 प्रवेश कुमार, थाना बड़गांव, सहारनपुर।
- 2-उ0नि0 श्री संदीप कुमार अधाना, थाना बड़गांव, सहारनपुर।
- 3-का0 612 दीपक कुमार, थाना बड़गांव, सहारनपुर।
- 4-का0 1320 विकास मान, थाना बड़गांव, सहारनपुर।
- 5-का0 2172 वरुण कुमार, थाना बड़गांव, सहारनपुर।

प्रेस नोट दिनांक 18/08/22 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
(थाना गंगोह पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार)

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सहारनपुर व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी गंगोह महोदय के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस टीम के द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 349/21 धारा 147/148/149/307/323/332/353/506/224/225/341/427 भादवि में वांछित चल रहे **अभियुक्त आशिफ पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को उसके मस्कन ग्राम दौलतपुर कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर से आज दिनांक 18/08/22 को समय 9.50 बजे गिरफ्तार किया गया है। वांछित अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आशिफ पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम दौलतपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह रावल, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 2.का0 1805 नितीन शर्मा, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
- 3.का0 1917 सद्दाम, थाना गंगोह जिला सहारनपुर